

उप बिल सं. Sub Bill No-----

## दौरे के लिए यात्रा भत्ता बिल Travelling Allowance Bill for Tour

नोट: यह बिल दो प्रतियों में भरा जाये-एक प्रति अदायगी के लिए और दूसरी कार्यालय प्रति के लिए

Note: This bill should be prepared in duplicate-one for payment and the other as office copy

### भाग क PART-A

(सरकारी कर्मचारी द्वारा भरा जाये To be filled up by the Government Servant)

- 1 नाम Name :
- 2 पदनाम Designation :
- 3 वेतन Pay : Rs /- (LEVEL- )
- 4 मुख्यालय Head quarters :
- 5 किए गए यात्रा के विवरण और प्रयोजन Detail and purpose of journey (s) performed

प्रस्थान Departure		आगमन Arrival		यात्रा के साधन और श्रेणी Mode of Travel and class of Accommodation	अदा किया गया किराया Fare Paid		सड़क मार्ग के लिए दूरी किमी में Distance in kms for road mileage	ठहरने कि अवधि Duration of halt		यात्रा का प्रयोजन Purpose of Journey
तारीख व समय Date and Time	कहाँ से From	तारीख व समय Date and Time	कहाँ तक To		Rs	Ps		Days	Hrs	
1	2	3	4	5	6	7	8	9		

### 6 यात्रा के साधन Mode of Journey

#### (i) वायु AIR

- (a) विनिमय वाउचर का प्रबंध कार्यालय द्वारा किया गया था। हाँ / नहीं  
Exchange voucher arranged by office yes/ No
- (b) टिकट/ विनिमय वाउचर का प्रबंध किसने किया था।  
Ticket/ Exchange voucher arranged by :

**(ii) रेल RAIL**

- (a) क्या मेल/ एक्सप्रेस/ साधारण रेल से यात्रा किया था ? :  
Whether travelled by mail/ express/ ordinary train? :
- (b) क्या वापसी टिकट उपलब्ध था? :  
Whether return tickets available ? :
- (c) यदि हाँ तो क्या वापसी टिकट खरीद लिया गया था? :  
If available, whether return ticket purchased ? :  
यदि नहीं तो कारण बताएं । & :  
If not state reasons. :

**(ii) सड़क ROAD**

यात्रा के लिए उपयोग में लाये गए साधन जैसे सरकारी वाहन/ टैक्सी/ अन्य सार्वजनिक वाहन में एक सीट लेकर/ किसी सरकारी कर्मचारी के कार में सहभागिता जैसे भी विनिर्दिष्ट करें।  
Mode of conveyance used i-e by Govt. Transport/ by taking a taxi, a single seat in a bus or other public conveyance/ by sharing with other Govt. servant in a car belonging to him or to a third person to be specified.

7 ठहरने के स्थान से अनुपस्थिति की तारीख Date of absence from place of halt on account :

- (a) वै. छु /आ छु R.H./ C.L.  
रविवार और छुट्टियों के दिन शिविर से अनुपस्थिति। :  
Not being actually in camp on Sunday and holidays.

8 राज्य अथवा राज्य कोष से वित्त प्राप्त किसी संगठन द्वारा प्रदान किए गए मुफ्त भोजन और/ या आवास किन तारीखों को उपलब्ध था। Dates on which free board and/ or lodging provided the state or any organisation financed by state funds:

- (a) केवल भोजन Board only -  
(b) केवल आवास Lodging only -  
(c) भोजन और आवास Boarding & Lodging -

9 निर्धारित टैरिफ पर भोजन और आवास प्रदान करने वाले होटल/ अन्य स्थापनाओं में ठहरने के मामले में दैनिक भत्ता से अधिक दावा करने पर होटल रसीदों के साथ दावा प्रस्तुत करें। Particulars to be furnished along with hotel receipts etc., in cases where higher of by D.A is claimed for stay in hotel / other establishment providing board and/ lodging at scheduled tariffs.

ठहरने की अवधि PERIOD OF STAY		हॉटल का नाम Name of the Hotel	आवास हेतु लगाए गए दैनिक दर Daily rate of Lodging charged		अदा किए गए कुल रकम Total amount paid	
कब से from	कब तक To		Rs	Ps	Rs	Ps
1	2	3	4	5	6	7

10. यात्रा के विवरण जिसके लिए सरकारी कर्मचारी ने अपनी हकदार श्रेणी प्राप्त किया था।

Particulars of journey (s) for which higher class of accommodation than the one which the Govt. servant is entitled was used:

तारीख Date	स्थान का नाम Name of Place		यात्रा का साधन Mode of conveyance	किस श्रेणी का हकदार है। Class to which entitled	किस श्रेणी में यात्रा किया गया। Class by which travelled	अदा किया गया भाड़ा Fare paid	
	कहाँ से From	कहाँ तक To				Rs	Ps
1	2	3	4	5	6	7	

यदि यात्रा सक्षम अधिकारी की स्वीकृति से उच्च श्रेणी में किया गया हो तो स्वीकृति की संख्या व तारीख का उल्लेख करें।

If the Journey(s) in higher class of accommodation has been performed with the approval of the competent authority, No & date of sanction may be quoted.

11. रेल से जुड़े स्थानों पर सड़क से किए गए यात्राओं के विवरण।

Details of journey(s) performed by road between places connected by rail:

तारीख Date	स्थान का नाम Name of places		अदा किए गए भाड़ा Fare paid	
	कहाँ से From	कहाँ तक To	Rs	Ps

12. प्राप्त किए गए यात्रा भत्ता, यदि हो। Amount of T A advance if any drawn Rs. ....

प्रमाणित किया जाता है कि ऊपर दिये गए विवरण मेरे जानकारी और विश्वास के अनुसार सही है।  
Certified that the information, as given above is true to the best of my knowledge and belief.

सरकारी कर्मचारी का हस्ताक्षर  
Signature of the Govt. Servant.

तारीख Date:

**भाग बी PART B**

(बिल अनुभाग द्वारा भरा जाए To be filled in the Bill Section)

यात्रा भत्ता के रूप में वास्तविक देय राशि इस प्रकार है।

The net entitlement on account of travelling allowance works out to Rs. ----- as detailed below.

- (a) रेल/ वायु/बस/स्टीमर का किराया Railways /Air/ Bus /Steamer fare Rs.....
- (b) सड़क मील की दूरी Road Mileage for-----Kms Rs.....  
@-----per / Km
- (c) दैनिक भत्ता Daily allowance
- (i) -----days @ Rs-----per day रु..Rs.....
- (ii) -----days @ Rs-----per day रु..Rs..... --  
-----days @ Rs-----per dayरु..Rs.....
- (d) वास्तविक व्यय Actual expenses रु..Rs.....  
-----  
कुल रकम Gross Amount रु..Rs.....
- (e) यात्रा भत्ता अग्रिम का घटाया रकम यदि हो।  
Less amount of TA advance if any, Drawn vide voucher No- ----- dated .....  
रु..Rs. ....
- शुद्ध राशि Net Amount रु..Rs.....  
रु...Rs.....

The Expenditure is debatable to -----

लिपिक का आध्याक्षर initials of bill clerk.

प्रशासनिक अधिकारी/आ.सवि.अधिकारी  
Administrative Officer /DDO

प्रतिहस्ताक्षरित COUNTERSIGNED

उप/ सहायक आयुक्त  
Dy./Asst. Commissioner

प्रमाणित किया जाता है कि **Certified that :**

1. मैंने मेल/ एक्सप्रेस गाड़ी में वास्तव में उसी दर्जे में यात्रा की है, जिसके लिए यात्रा भत्ता बिल में दावा किया है। I actually traveled by Mail/Express Train by the class of accommodation as claimed in the T.A.Bill.
2. मैं उस अवधि के दौरान जिसके लिए दैनिक यात्रा भत्ते का दावा किया है, रविवार तथा अन्य छुट्टी के दिनों में संवैधानिक रूप से नहीं अपितु वास्तव में शिविर में उपासनीय था। I was actually and not merely constructively in camp on Sundays and other holidays during the period for which daily allowance has been claimed.
3. ऐसे किसी भी दिन में आकस्मिक छुट्टी पर नहीं था, जिसके लिए मैं ने बिल में दैनिक भत्ता लगाया गया है। I was not on casual leave on any day for which daily allowance has been charged in the Bill.
4. सड़क की दूरी जिसके लिए सड़क दूरी भत्ता लगाया गया है, मेरी जानकारी और विश्वास के अनुसार सही है। The distance by the road for which road mileage allowance have been claimed is correct to the best of my knowledge and belief.
5. वे ठहराव जिनके संबंध में पूरा तथा अर्ध दैनिक भत्ता लगाया गया है, ठहराव के स्थानों पर कार्य निष्पादन के लिए आवश्यक हो गए थे। The halts for which full and half daily allowance has been claimed were necessitated by the performance of the duty at the place of halts.
6. यह यात्रा जनहित में की गई है। सड़क दूरी भत्ते का दावा जिस यात्रा के संबंध में किया गया है, उसके लिए कोई भी सरकारी परिवहन का उपयोग नहीं किया गया है। The journeys were performed in the interest of public service and no Government Transport was utilized for journeys for which road mileage has been claimed.
7. अनुपूरक नियमावली के नियम 45 में निर्धारित उच्च दरों पर सड़क दूरी भत्ते का दावा करके निश्चित दरों के किराये पर निश्चित स्थानों तक जाने वाली किसी भी सार्वजनिक वाहन में (स्टीमर सहित) एक सीट लेकर मैं ने ऐसी यात्रा नहीं की है। यह भी प्रमाणित करता हूँ कि अन्य किसी भी वाहन में उसका किराया या परिचालन व्यय दिये बिना यात्रा नहीं की है। I did not perform road journeys for which mileage allowance has been claimed at the higher rate prescribed in Rule 25 of the supplementary Rule or taking a single seat in any public conveyance (including a steamer) plies regularly for hire between fixed points and charges fixed travels. I also certify that the journeys were not performed in any other vehicle with out payment of its hire charge incurring its running expense.
8. इंडियन एयरलाइन्स निगम से विनिमय आदेश द्वारा निवेदन करके अपनी हवाई यात्रा के टिकट लेने का उधार सुविधा का मैं ने लाभ उठाया है। I availed myself of credit facilities for booking my Air passage with Indian Airlines Corporation by requesting through an exchange voucher.
9. मैंने निजी मोटर कार में जो यात्रा की थी वह जनहित में और समय बचाने के लिए आवश्यक थी। The journey performed in own car was necessary in the public interest and to save time.

नाम Name :

पदनाम Designation :

हस्ताक्षर Signature

10. प्रमाण पत्र CERTIFICATE

11. प्रमाणित करता हूँ कि मैं ने Certified that I have

से From तक to

से From तक to

से From तक to

से From तक to

ठहरा जहां अनुसूचित टैरिफ पर बोर्डिंग और लॉजिंग कि व्यवस्था थी।  
Stayed which provided boarding /lodging at the scheduled tariff.

नाम Name :

पदनाम Designation :

हस्ताक्षर Signature